



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2017/चैत्र 1, 1939

No. 215]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2017/CHAITRA 1, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2017

**सा.का.नि. 272(अ).—**राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क आयुक्तालय, आशुलिपिक ग्रेड - I (समूह 'ख' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क आयुक्तालय, आशुलिपिक ग्रेड - I (समूह 'ख' अराजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क आयुक्तालय, आशुलिपिक ग्रेड - I (समूह 'ख' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2015 में -

(क) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

“3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर को इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।”;

(ख) अनुसूची में,

(i) स्तंभ (4) में,-

(अ) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”

(आ) प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400-1,12,400 रु.)”

(ii) स्तंभ (11) में,-

(अ) “प्रोन्नति” शीर्षक के अधीन “वेतन बैंड-1, 5,200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 2400/- रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगे, अर्थात:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4 (25,500-81,100 रु.)”

(आ) “प्रतिनियुक्ति” शीर्षक के अधीन “वेतन बैंड-1, 5,200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 2400/-रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगे, अर्थात:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4 (25,500-81,100 रु.)”

[फा. सं. ए-12018/13/2012-प्रशा. III.ख]

राजपाल सिंह, अवसर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, संख्या सा.का.नि. 727(अ), तारीख 21 सितम्बर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2017

**G.S.R. 272(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Excise and Customs Commissionerates, Stenographer Grade –I (Group ‘B’ Non-Gazetted posts) Recruitment Rules, 2015, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise and Customs Commissionerates, Stenographer Grade – I (Group ‘B’ Non-Gazetted Post) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise and Customs Commissionerates, Stenographer Grade–I (Group ‘B’ Non-Gazetted posts) Recruitment Rules, 2015,-

(a) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

“3. Number of posts, classification, level in pay matrix. – The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.”;

(b) in the Schedule,-

(i) in column (4),-

(A) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

“Level in the pay matrix”;

(B) for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“Level – 6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400)”;

(ii) in column (11),

(A) under the heading “Promotion”, for the words and figures “Pay Band - I of Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400/-”, the words and figures “Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100)” shall be substituted;

(B) under the heading “Deputation”, for the words and figures “pay band-1 Rs.5200-20200 with Grade pay Rs. 2400/-”, the words and figures “Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100)” shall be substituted.

[F. No. A-12018/13/2012-Ad.III. B]

RAJPAL SINGH, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 727(E), dated the 21<sup>st</sup> September, 2015.